

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त 2014—श्रावण 23, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2014

फा. क्र. 17 (ई) 173-2014-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला कटनी विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 92-विजयराघवगढ़ एवं 94-बहोरीबंद हेतु विधान सभा उप निर्वाचन 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित 35 अधिकारियों को दिनांक 21 अगस्त 2014 से दिनांक 25 अगस्त 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

## Sector Officer / Zonal Magistrate Information

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं कार्यालय	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाना प्रस्तावित है	सेक्टर नम्बर	सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट		स्थितिक निगरानी टीम	उड़न-दस्ता
						जोन नम्बर	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	श्री सुनील कुमार 9981413922	सहायक प्राध्यापक, शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	विजयराघवगढ़	3	3	92	07,05,06,41, 40,02,03,04.	
2.	श्री एस. के. मिश्रा 9425889806	उप परियोजना संचालक, आत्मा परियोजना.	कृषि विभाग	विजयराघवगढ़	5	5	92	50,54,55, 53,51,52.	
3.	श्री एस. के. देवडा 9499466943	जिला पेंशन अधिकारी, कटनी.	पेंशन प्रकोष्ठ विभाग	विजयराघवगढ़	15	15	92	14,35,36, 37,38,39.	
4.	श्री एस. आर धाकड	अनुविभागीय अधि, लघु उद्योग निगम.	लघु उद्योग विभाग	विजयराघवगढ़	21	21	92	123,124,125,129, 130,135,136.	
5.	श्री पी. पी. सातनकर 9406912001	कार्यपालन यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण.	गृह निर्माण मंडल	विजयराघवगढ़	22	22	92	134,137,138,139, 127,128,131,132.	
6.	श्री एस. के. दुबे 9826219858	जनरल मैनेजर, एम. पी. स्टेट माइनिंग, कटनी.	खनिज विभाग	विजयराघवगढ़	23	23	92	133	
7.	श्री जी. पी. कोरी 9120429535	अनु. अधिकारी, पी.एच.ई.	लोक निर्माण विभाग	विजयराघवगढ़	25	25	92	147,148,149,150, 151,152,153,154.	
8.	श्री एस. के. टेकाम 8959525775	अनु. अधि., ग्रा. यां. सेवा क्रमांक-1.	ग्रा. यां. वि.	विजयराघवगढ़	30	30	92	175,176,193, 194,197.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	श्री पी. आर. देव 9827570974	उपक्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कटनी.	प्रदूषण नियंत्रण विभाग.	विजयराघवगढ़	34	31	92	210,211,212,213		
10.	श्री ए. के. अमिनहोत्री 8989535050	कार्य. यंत्री, नर्मदा घाटी दांयी तट सं.-1	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण.	विजयराघवगढ़	36	36	92	199,200,201, 202,203.		
11.	श्री जी. आर. सिंह 9424927587	सहायक यंत्री, नर्मदा घाटी संभाग कटनी.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण.	बहोरीबंद	39	39	94	16,17,25,26,32		
12.	श्री के. पी. राकेश 9425387601	प्रभारी श्रम पदाधिकारी, कटनी.	श्रम विभाग	बहोरीबंद	41	41	94	6,7,8,3		
13.	श्री एम. एल. चौरसिया 9898836600	सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कटनी.	बहोरीबंद	43	43	94	42,43,44,45,46		
14.	श्री वीरेंद्र कुमार द्विवेदी 9425859523	सहायक प्राध्यापक, शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	बहोरीबंद	45	45	94	35,39,40,41		
15.	श्री श्याम जी मिश्रा 9926894014	जिला विपणन अधिकारी, कटनी.	विपणन विभाग	बहोरीबंद	48	48	94	61,62,63, 66,67,68.		
16.	श्री भोला प्रसाद सिंह 9752857857	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटनी.	शिक्षा विभाग	बहोरीबंद	51	51	94	221,222,223, 224,225,226.		
17.	श्री डी. के. मिश्रा 9425867436	अनुविभागीय अधिकारी, पी.आई.यू., कटनी.	लो. नि. विभाग	बहोरीबंद	54	54	94	209,210,211,212, 213,214,180.		
18.	श्री सुनील गोखे 9425465595	प्रबंधक, सेट्टल वेयर हाउस, कटनी.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कटनी.	बहोरीबंद	56	56	94	201,202,203		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.	श्री सदार दिवाकर 9826854306	सहायक प्राध्यापक, तिलक महाविद्यालय, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	बहोरीबंद	58	58	94	140,141,142,143,190		
20.	श्री एस. के. दुबे 8989614232	सहायक यंत्री, नर्मदा विकास मंडल, कटनी.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण.	बहोरीबंद	62	62	94	76,77,78,79		
21.	श्री अरुण कुमार 9425832348	प्राध्यापक, तिलक कालेज, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	बहोरीबंद	67	67	94	121,123,124, 125,126,127.		
22.	श्री जी. आर. मिश्रा 9425384126	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि.	कृषि विभाग	बहोरीबंद	69	69	94	149,150,165,166,185, 185-क,186,187, 188,184,177.		
23.	श्री एस. एन. भेले 9827086200	सहा. यंत्री, कटनी विकास प्राधिकरण.	विकास प्राधिकरण	बहोरीबंद	73	73	94	161,162,163,164, 151,152,153.		
24.	श्री अनिल अम्बवानी 9827270994	कार्यपालन यंत्री, कटनी विकास प्राधिकरण.	विकास प्राधिकरण	बहोरीबंद	77	77	94	105,107,108,113,114		
25.	श्री अनिल तोहेल 9977322786	सहा. प्राध्यपक, शास. तिलक महाविद्यालय, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
26.	श्री ए. के. चौरसिया 9425438445	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र.	उद्योग विभाग	सम्पूर्ण जिला						
27.	श्री एस. ए. मेश्राम 9424396962	जिला पंजीयक, स्टाम्प, कटनी.	पंजीयन विभाग	सम्पूर्ण जिला						
28.	डॉ. आर. के. सिंह 9425466469	पशु चिकित्सा सेवाएं, कटनी.	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
29.	डॉ. जी. एस. पेंड्रे 9589098307	पशु चि. वि. अ. ढीमरखेड़ा.	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण जिला						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30.	श्री नत्थूलाल बंशकार 8349320785	प्राचार्य, आई.टी.आई., विजयराघवगढ़.	औद्योगिक शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
31.	श्री सुग्रीव पटेल 7415208541	प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, माधवनगर, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
32.	श्री आनन्द कोरी 9630101916	प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एन.के.जे. कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
33.	श्री बी. बी. दुबे 9893957991	प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, विजयराघवगढ़.	उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
34.	श्री के. सी. सिंह 9589017110	प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय.	उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						
35.	श्री अशोक श्रीवास्तव 9424640605	प्राध्यापक तिलक महाविद्यालय, कटनी.	उच्च शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण जिला						